**IE308** 

Roll No.:....

## 2019 SIGNAL CONDITIONING

निर्धारित समय : तीन घंटे]

अधिकतम अंक : 70

Time allowed: Three Hours

[Maximum Marks: 70

नोट: (i) प्रथम प्रश्न अ

) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं **पाँच** के उत्तर दीजिये।

Note: Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये। Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये। Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है। Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाइए:

Explain the following in brief:

- (i) संकेत अनुकूलन Signal Conditioning
- (ii) बफर संवर्धक Buffer amplifier
- (iii) सेम्पलिंग Sampling
- (iv) संक्रिया प्रवर्धक इंवर्टर के रूप में Op-Amp as an inverter

 $(2\frac{1}{2}\times4=10)$ 

- 2. (i) संकेत स्तर परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले परिपथ को सचित्र समझाइए।

  Draw and explain a circuit that displays signal level changes.
  - (ii) निष्क्रिय न्यून पारित छनित्र का चित्र बनाये और समझाइए ।

Draw and explain a passive low pass filter.

 $(6\times2)$ 

(1 of 2)

P.T.O.

| •  | <b>(1)</b>    | मिल्ला अस्ति का होता है ३ जिल्लामा एवं समहाराम ।                                                            |       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. | (i)           | प्रतिबाधा अनुकूलन क्या होता है ? चित्र बनाइए एवं समझाइए ।<br>What is impedance matching ? Draw and explain. |       |
|    | (**)          |                                                                                                             |       |
|    | (ii)          | विलगन प्रवर्धक क्या होता है ? चित्र बनाइए एवं समझाइए ।                                                      | (6×2) |
|    |               | What is isolation amplifier? Draw and explain.                                                              | (0,2) |
| 4. | (i)           | सैम्पल एवं होल्ड परिपथ का चित्र बनाइए एवं कार्यप्रणाली समझाइए ।                                             |       |
|    |               | Draw and explain working of a sample and hold circuit.                                                      |       |
|    | (ii)          | व्हीटस्टोन ब्रिज की सचित्र कार्यप्रणाली समझाइए ।                                                            |       |
|    |               | Draw and explain working of a wheatstone bridge.                                                            | (6×2) |
| 5. | (i)           | बैण्ड पारित छनित्र के लिए निष्क्रीय तत्त्वों का उपयोग करते हुए चित्र बनाइए एवं कार्यप्र                     | णाली  |
|    |               | समझाइए।<br>Draw and explain working of a band pass filter using passive elements.                           |       |
|    | (::\ <u>)</u> | द्विआधारी भारित प्रतिबाधा आंकिक/सतत् परिवर्तक का चित्र बनाइए एवं समझाइए।                                    |       |
|    | (ii)          | Draw and explain working of a binary weighted resistance D/A converter.                                     | (6×2) |
|    |               | Draw and explain working of a officially weighted resistance Birt converse.                                 |       |
| 6. | (i)           | समय विभाजित मल्टीप्लेक्सिंग का चित्र बनाइए एवं समझाइए ।                                                     |       |
|    | (-)           | Draw and explain time division multiplexing (TDM).                                                          |       |
|    | (ii)          | बहु संकेत वियोजक का चित्र बनाइए एवं कार्यप्रणाली समझाइए ।                                                   |       |
|    |               | Draw and explain working of a demultiplexer.                                                                | (6×2) |
| 7. | (i)           | कोडित्र का चित्र बनाइए एवं समझाइए ।                                                                         |       |
|    | (-)           | Draw and explain working of an encoder.                                                                     |       |
|    | (ii)          | निम्नलिखित संक्रिया प्रवर्धक परिपथ का चित्र बनाइए एवं समीकरण व्युत्पन्न कीजिए :                             |       |
|    |               | Draw and derive equation for the following op-amp circuits:                                                 |       |
|    |               | (a) योजक                                                                                                    |       |
|    |               | Adder                                                                                                       |       |
|    |               | (b) भাजक                                                                                                    | ((2)  |
|    |               | Divider                                                                                                     | (6×2) |
| 8. | निम्न         | ालिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :                                                                         |       |
|    |               | ite short notes on the following:                                                                           |       |
|    | (i)           | ऑकड़ा अभिग्रहण प्रणाली                                                                                      |       |
|    |               | Data Acquisition Systems                                                                                    |       |
|    | (ii)          | डी सेंटिया सेतु                                                                                             |       |
|    |               | De Contribe Deides                                                                                          | (6×2) |